



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2011/माघ 15, 1932

No. 54]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2011/MAGHA 15, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 64(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय सहायक निदेशक (श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1965 को जहां तक इसका संबंध सहायक निदेशक (पूर्ति) (श्रेणी 2) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के पूर्ति प्रभाग में सहायक निदेशक पूर्ति के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (सहायक निदेशक, पूर्ति श्रेणी 2) भर्ती नियम, 2011 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान आदि.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. पदों की प्रकृति, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और सेवा की अन्य शर्तें, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की प्रकृति, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती के किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक श्रेणी-2 (पूर्ति)	46* (2011) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (राजपत्रित, अनुसूचिवीय)	वेतन बैंड-2 (9,300-34,800 रु.) धन ग्रेड वेतन 4,600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पैंतीस वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष की जा सकती है।)
	46 पदों का विद्या-नुसार विवरण : क. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिक और संचार/सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान 12 ख. सिविल इंजीनियरी 05 ग. यांत्रिकी इंजीनियरी 10 घ. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी 07 ङ. टेक्सटाइल इंजीनियरी 07 च. रासायनिक इंजीनियरी 05					टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी अथवा इलेक्ट्रानिक्स और संचार या सूचना	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)

प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान अथवा टेक्स्टाइल्स या रसायन में डिग्री अथवा उपरोक्त इंजीनियरी की विधाओं में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के भाग 1 और 2 परीक्षा की सहयुक्त सदस्यता या समतुल्य।

वांछनीय : (i) इंजीनियरी भंडारण, सिविल या यांत्रिकी या इलेक्ट्रिकल या संरचनात्मक या लोकोवहन और ट्रक आदि से संबंधित किसी वाणिज्यिक संस्थान या सरकारी विभाग में एक वर्ष अनुभव

(ii) इंजीनियरी भंडारण, जिसमें निविदा बुलाने, आदेश करने तथा भंडारों की पूर्ति जैसे क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, के उपापन में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : 1 अर्हताएं अन्यता सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनःनियोजन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनःनियोजन किया जाएगा।

(11)

(12)

सीधी भर्ती :

लागू नहीं होता

पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात् :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 (9,300-34,800 रु.) धन ग्रेड वेतन 4,200 रु. या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुके हों।

(ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

(क) अपर महानिदेशक (पूर्ति) या उप महानिदेशक (पूर्ति) —अध्यक्ष

(ख) निदेशक (प्रशासन) —सदस्य

(ग) निदेशक (पूर्ति) —सदस्य

[फा. सं. ए-12018/1/2008-ए1]

अजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SUPPLY DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2011

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General of Supplies and Disposals, Assistant Directors (Grade II) Recruitment Rules, 1965, in so far as it relate to the post of Assistant Director (Supplies) (Grade II), except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Supplies in the Supply Division, Department of Commerce in the Ministry of Commerce and Industry, namely :—

(1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals (Assistant Director of Supplies, Grade II) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification, Scale of Pay, etc.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Nature of the posts, method of recruitment, age limit and special conditions of service, etc.—The nature of the post, the method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to said post :

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether the benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Director Grade II (Supplies)	*46(2011) *(Subject to variation dependent on work-load) Discipline-wise break-up of 46 posts: (a) Electrical Engineering and Electronics and Communications/ Information Technology and Computer Science-12 (b) Civil Engineering-05 (c) Mechanical Engineering-10 (d) Electrical Engineering-07 (e) Textile Engineering-07 (f) Chemical Engineering-05	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial)	Pay band-2 (Rs. 9,300-34,800) plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto the age of thirty-five years in the case of general candidates and upto forty years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(8)

(9)

(10)

Essential :

Not applicable

Two years

Degree in Engineering in Civil or Mechanical or Electrical Engineering or Electronics and

392 2011-2

(8)

Communication or Information Technology or Computer Science or Textiles or Chemicals of a recognised University or Associate Membership Examination Part I and Part II of the Institution of Engineers (India) in the above disciplines of engineering or equivalent.

Desirable

- (i) One year experience in a commercial house or Government Department dealing with Engineering Stores, Civil or Mechanical or Electrical or Structural or Loco Carriage and trucks, etc.
- (ii) one year experience in procurement of Engineering Stores, including activities like calling tenders, placing Orders and supply of stores.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing required experience are not likely to be available to fill the vacancy reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	Grade from which recruitment by Promotion/Deputation/Transfer/Short-term contract re-employment is to be made
--	---

(11)

(12)

Direct Recruitment

Not applicable

Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in pay band-2 (Rs. 9300-34800) plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation):

- (a) Additional Director General (Supplies) or Deputy Director General (Supplies) —Chairman
 (b) Director (Administration) —Member
 (c) Director (Supplies) —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

[F. No. A-12018/1/2008-A. 1]

AJAY KUMAR, Under Secy.